

Jai Mata Glass Limited

Head Office: Flat No. A-1, Upper Ground Floor, Property No 23
Block-A, Rajpur Road, Chattarpur Extension, New Delhi – 110074
Regd. Office & Works: Village Tipra, Barotiwala, Distt. Solan-174103 (HP)
CIN NO. L26101 HP 1981 PLC 004430

E-Mail ID: admin@jaimataglass.com * Website: www.jaimataglass.com * Mob. No. 9811299555

January 23, 2025

Corporate Relationship Department

BSE Limited
P.J. Towers,
1st Floor, New Trading Ring,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Ref: BSE Scrip Code: 523467 and Scrip ID: JAIMATAG

Sub: Newspaper Publication of Un-audited Financial Results (Standalone) for the quarter and nine months ended 31st December, 2024.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, we enclose the copies of Newspaper publication of unaudited Financial Results (Standalone) for Quarter and nine months ended 31st December, 2024 published in following Newspapers:

1. Financial Express, Chandigarh – English Language
2. Jansatta- Chandigarh- Hindi Language

We request you to kindly take the same on record.

**Thanking you,
For JAI MATA GLASS LIMITED**

**Amrita Mittal
(Company Secretary & Compliance Officer)**

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता वागपत वृत्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
 कार्यालय परिसर, मन्कोला विहार, गाजियाबाद-201102 ईमेल: -circlem@upavp.com

अध्यक्षताधीन ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

मण्डला विहार योजना, गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टरों में एकल/द्व-बिड सिस्टम के अन्तर्गत ऑनलाइन ई-निविदा सूचना संख्या-79/पी0आर0ओ0-50ई/02, दिनांक 20.01.2025 द्वारा आमंत्रित की गयी है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.upavp.com एवं कार्यालय में किसी भी कार्यदिन में देखा जा सकता है।

अपील अभियन्ता

प्रख सं. 14 [विनियम 32(2) देखें]

अध्यक्षता अधीक्षण, देहरादून
 पारस टावर, 2य तल, माजरा निरंजनपुर, सहारणपुर रोड, देहरादून

आर.सी. नं. 229/2024 दिनांक: 17.01.2025
 एचडीएसी बैंक लि. प्रमाणपत्र धारक

मै. कर्मगण एंड सन्स एड अदर्स बनाम प्रमाणपत्र डेक्टर

मांग सूचना

सेवा में:

- रकमगण एंड सन्स, द्वारा उसके पॉस्टन एडमिशन एग गार्ड, पता: के-235, सूर्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सादरत पुरीसाइड/डीसी, गेज रोड-201301, उत्तर प्रदेश, द्वारा पता: 98, सादरत भोपा रोड, न्यू मंडी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001
- एडमिशन एग गार्ड, पुर श्री अशोक कुमार गर्ग, निवासी: मकान सं. 112, ग्रीनवुड सोसायटी ओमेगा 1, फेज 1, तुंगलपुर, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201310, द्वारा पता: 98, सादरत भोपा रोड, न्यू मंडी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001
- अशोक कुमार गर्ग, पुर श्री अशोक कुमार गर्ग, निवासी: मकान सं. 112, ग्रीनवुड सोसायटी ओमेगा 1, फेज 1, तुंगलपुर, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201310, द्वारा पता: 98, सादरत भोपा रोड, न्यू मंडी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001
- एला गर्ग, पत्नी श्री अशोक कुमार गर्ग, निवासी: मकान सं. 112, ग्रीनवुड सोसायटी ओमेगा 1, फेज 1, तुंगलपुर, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201310, द्वारा पता: डी-76, पश्चिमी एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017

पीठवासी अधिकारी, डीआरटी, देहरादून द्वारा पॉस्टन एग गार्ड, नं. 2023 के 267 में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अलोक में रु. 3,46,79,419.02 (रु. तीन करोड़ छियास लाख उनवसी हजार चार सौ उनीस वैसे दो पात्र) के साथ 25.05.2023 से वसूल तक विलम्ब तथा 11.00% साधारण वार्षिक व्याज दर पर अग्रे के व्याज तथा रु. 2,09,500.00 (रु. दो लाख नौ हजार पांच सौ मात्र) को रॉल अप कर (संकुल तथा पुनर्कर रूप से) बकाया हो गया है।

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी को संतुष्टि के लिये यह सखित हो चुका है कि आपको साधारण तरीके से सर्व करना संभव नहीं है, एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा अग्रे की वसूली तथा विवादायक अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत विधियों के अनुसार वसूली वसूली की जायेगी।

एतद्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि अधिम कारवाई के लिये 2.4.2025 को 10.30 पूर्वा. में अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख उपस्थित हों।

उरोक्त राशि के अतिरिक्त आप अधोलिखित का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी है:

क) प्रमाणपत्र/निष्पन्न कारवाई की इस सूचना के तत्काल बाद शुरू होने वाली अवधि के लिये देय व्याज
 ख) इस सूचना तथा वारंट्स को सखित तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया राशि को वसूली के लिये शुरू की गई अन्य सभी कारवायों के संदर्भ में वजन की गई सभी लातों, चार्जेंज तथा खर्च।

किस्की अधिकारी
 अध्यक्षता अधीक्षण, देहरादून

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443
 Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
 Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304
 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
 Tel: 0120-6918000



EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended
		December 31, 2024	December 31, 2024	December 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	5432.73	15180.94	4177.76
2	EBITDA (Including other income)	367.23	846.43	294.57
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	280.10	601.71	218.99
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	280.10	601.71	218.99
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	216.97	463.95	165.51
6	Total Comprehensive income for the period	240.02	473.44	160.81
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity	-	-	-
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures)	Basic:	16.72	5.97
		Diluted:	16.72	5.97

Notes: (₹ in Crs.)

Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	
	December 31, 2024	December 31, 2024	December 31, 2023	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Income from Operations	3781.49	10604.2	3145.52	
Profit Before Tax	110.05	245.13	138.70	
Profit After Tax	86.34	184.70	102.91	

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:

Place: Noida
 Date: 20 Jan, 2025



For APL Apollo Tubes Limited
 Sd/-
 Sanjay Gupta
 Chairman and Managing Director



DESH KI BADAHTI TAQAT

International Travel House
इन्टरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: "ट्रेवल हाउस", टी-2, कम्प्यूटि सेन्टर, शेख सराय, फेज-1, नई दिल्ली - 110017
 सीआईएन: L63040DL1981PLC011941
 टेल: 91-11-26017808 | ई-मेल: Investor_TH@ith.co.in | वेबसाइट: www.internationaltravelhouse.in

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अनेकेशित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	31.12.2024 को समाप्त 3 महीने	31.12.2024 को समाप्त 9 महीने	31.12.2023 को समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने
1	प्रचालनों से कुल आय	5,973.90	17,941.09	5,468.95
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	728.42	2,623.89	664.74
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	728.42	2,623.89	664.74
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	538.26	1,952.06	493.79
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ से शामिल) (कर के बाद तथा अन्य व्यापक आय के बाद) (कर के बाद)	526.31	1,916.19	482.75
6	इक्विटी शेयर पूंजी	799.45	799.45	799.45
7	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति) (वार्षिक नहीं है):			
	1. मूल (₹):	6.74	24.42	6.17
	2. तरल (₹):	6.74	24.42	6.17

टिप्पणी:

क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल अनेकेशित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। विस्तृत अनेकेशित वित्तीय परिणाम तथा इस सारांश की ऑडिट कमितटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 20 जनवरी, 2025 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में उसे अनुमोदित किया गया। अनेकेशित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट (www.internationaltravelhouse.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

ख) सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित सीमित समीक्षा पूरी कर ली गई है तथा संबंधित रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के अग्रसारित कर दिए हैं। इस रिपोर्ट का 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के परिणामों तथा टिप्पणियों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जिसका व्याख्या की जाए।

हस्ता/- अश्विन गुदलियार प्रबंध निदेशक
 तिथि: 20 जनवरी, 2025
 स्थान: गुरुग्राम

हस्ता/- गुणन चड्ढा मुख्य वित्त अधिकारी

JAI MATA GLASS LIMITED
 CIN: L26101HP1981PLC004430, Regd. Office: TIPRA, BAROTIWALA, DISTRICT, SOLAN (H.P.)-174 103
 Statement Of Unaudited Financial Results For The Quarter And Nine Months Ended December 31, 2024 (₹s. lakhs)

S. No.	Particulars	Unaudited		Audited		
		3 months ended	Preceding 3 months ended	3 months ended	Year to date figures for corresponding period ended	Year Ended
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
	Income					
	Gross Sales	10.86	10.89	9.67	32.52	34.71
	Other operating income	10.86	10.89	9.67	32.52	34.71
	Revenue from Operation	2.19	1.54	-	3.73	3.55
	Other Income	13.05	12.43	9.67	36.25	38.26
1	Total Income from operations (Net) (1+2)	2.00	5.14	0.52	7.83	(4.35)
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) (3+4)	2.00	5.14	0.52	7.83	(4.35)
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2.00	5.14	0.52	7.83	(4.35)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or extraordinary items)	1.55	(1.88)	4.81	4.75	9.65
5	Total Comprehensive Income (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax))	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6	*Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹. 1/- (Not annualised))	0.002	0.005	0.001	0.008	(0.004)
7	Other Equity					(691.27)
8	Earnings per share					
	(a) Basic & Diluted (in ₹s.)					

Notes:
 1. The financial results of the Company have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("IndAS") as notified under the Companies (IndAS) Rules, 2015, as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
 2. The financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024, are available at the Company's website, www.jaimataglass.com and Bombay Stock Exchange website, www.bseindia.com.
 3. The Chief Financial Officer has certified that the financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024, do not contain any false or misleading statement of figures and do not contain any material fact which may make the statement or figures contained therein misleading.
 4. The Board of the Company is exploring and evaluating various business opportunities. Accordingly, the accounts of the Company have been prepared on a going concern basis.
 5. The above results for the quarter and nine months ended 31.12.2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 20, 2025. The unaudited results for the current quarter and the nine months have been subjected to limited review by the statutory auditor of the company. The review report of the Statutory auditor is being filed with BSE Limited.
 6. The figures for the previous period have been regrouped/rearranged, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

By Order of the Board
 Jai Mata Glass Limited
 CHANDER MOHAN MARWAH
 Managing Director (DIN: 00172818)

Dated: 20.01.2025
 Place: New Delhi

one97 Paytm
ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED
 CIN: L72200DL2000PLC108985
 Registered Office: First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, India
 Tel: +91 11 2628 0280; Website: www.paytm.com
 Corporate Office: Paytm Corporate Office, One Skymark, Tower-D, Plot No. H-10B, Sector-98, Noida-201304, Uttar Pradesh, India
 Tel: +91 120 4770770; E-mail: compliance.officer@paytm.com; Fax: +91 120 4770771

Statement of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on January 20, 2025.

The full format of Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website at https://paytm.com/document/ir/financial-results/Financial-Results-Q3-FY25_Paytm.pdf and can be accessed by scanning the QR code.

For One 97 Communications Limited
 Place: Noida
 Date: January 20, 2025

Madhur Deora
 Executive Director, President & Group CFO

newgen UNLOCK SIMPLE

NewgenONE Digital Transformation Platform
 A comprehensive low code, cloud-based platform for every enterprise

Key Highlights - Q3 FY'25 v/s Q3 FY'24

Revenues	Profit after Tax	New Logos
₹ 381 Cr	₹ 89 Cr	15
18% YoY growth	30% YoY growth	

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही व नौमाही के लिये समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	समेकित (राशि ₹ लाख में)				
		समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		
		31 दिसम्बर, 2024 (अनकेशित)	30 सितम्बर, 2024 (अनकेशित)	31 दिसम्बर, 2023 (अनकेशित)	31 दिसम्बर, 2024 (अनकेशित)	31 दिसम्बर, 2023 (अनकेशित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	38,111.26	36,115.75	32,365.27	1,05,698.94	86,856.06
2.	अवधि के लिये निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या असाधारण मदों से पूर्व)	10,663.07	9,257.55	7,998.57	26,069.67	17,519.96
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मदों के पश्चात)	10,663.07	9,257.55	7,998.57	26,069.67	17,519.96
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मदों के पश्चात)	8,900.17	7,033.17	6,834.99	20,690.32	14,633.78
5.	अवधि के लिये कुल समग्र आय [अवधि के लिये (कर पश्चात) लाभ / (हानि) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सहित]	8,887.61	7,285.19	6,956.62	20,852.05	14,732.70
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 10 का अंकित मूल्य)	13,995.54	13,992.42	6,986.65	13,995.54	6,986.65
7.	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के अनेकेशित तुलन पत्र में दर्शाया गया था।	1,08,373.58	1,08,373.58	91,287.52	1,08,373.58	91,287.52
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹ 10/- के) (जासी और स्थगित प्रचालनों के लिये) -					
	1.बेसिक इंपीएस:	6.36	5.03	4.90	14.79	10.50
	2.डाइल्यूटेड इंपीएस:	6.16	4.87	4.73	14.31	10.21

नोट:
 1. 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही व नौमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की 20 जनवरी 2025 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 20 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया। 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही व नौमाही के लिए कंपनी के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानक (इंएस-एएस) और इसके अधीन जारी संयत विधियों के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का लागू रूपांतरण अनुरोधित किया है।
 2. लेखापरीक्षा के 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही व नौमाही के लिए कम्पनी के एकल एवं समेकित परिणामों को सीमित समीक्षा की है। इन वित्तीय परिणामों पर लेखापरीक्षा के सभी रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं है।
 3. महत्वपूर्ण एकल वित्तीय सूचना

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही	
	31 दिसम्बर 2024 (अनकेशित)	30 सितम्बर 2024 (अनकेशित)	31 दिसम्बर 2023 (अनकेशित)	31 दिसम्बर 2024 (अनकेशित)	31 दिसम्बर 2023 (अनकेशित)
प्रचालनों से राजस्व	34,634.16	33,127.48	29,887.74	96,038.50	78,643.85
कर पूर्व लाभ	9,922.24	8,677.87	7,552.53	24,075.22	16,080.25
कर पश्चात लाभ	8,369.99	6,586.71	6,528.50	19,195.44	13,610.67

निदेशक मंडल ने 30 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 4.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (1:1 के बोनस इश्यू के बाद विस्तारित पूंजी आधार पर प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य पर) के लाभांश की सिफारिश की, जिसे 25 जुलाई 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदित किया गया। लाभांश का भुगतान 2 अगस्त 2024 को किया गया।
 27 नवंबर 2023 को बोर्ड की मंजूरी और 2 जनवरी 2024 को शेयरधारकों की मंजूरी के अनुसार, पोर्टल वेबटैक के माध्यम से, कंपनी ने 13 जनवरी 2024 को कंपनी के पात्र सदस्यों को 10 रुपये प्रति शेयर (एचडीएसी) के साथ 7,00,69,401 बोनस शेयर अर्जेंट किए हैं, जिनके नाम रिकॉर्ड दिनांक 12 जनवरी 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर / लाभांश मालिकों की सूची में 1:1 के अनुपात में दिखाई देते हैं। उक्त बोनस शेयर लाभांश सहित कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान होंगे। बोनस इश्यू के परिणामस्वरूप, 7,00,69,401 रुपये से बढ़कर 14,03,88,88 रुपये हो गए। वृद्धता पूंजी में उपरोक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप, प्रति शेयर आय (मूल और पतला) 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए समायोजित की गई है।
 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने 15 अक्टूबर 2024 को सूचने हुए एसओपी स्क्रीन 2022 के तहत अपने कर्मचारियों को 5,30,100 ऑप्शन प्रदान किए हैं।
 पिछली अवधि में, पाँच के आठवें को वर्कलॉन अर्बि / पॉप एनर्जि / प्रकटीकरण के अनुसार करने के लिए जहा भी आवश्यक हुआ पुनः समीक्षा / पुनः परीक्षा किया गया है जिसे इन वित्तीय परिणामों के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।
 उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को पास दाखिल 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई एफ एनएसई स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट <https://landing-newgensoft.com/hubs/2020%20Website%20files/IR/FinancialResults2012025.pdf> पर उपलब्ध है और इन्हें नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है:-

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजि लिमिटेड
 सीआईएन: L72200DL1992PLC049074
 पंजीकृत कार्यालय: ई-44/13, ओखला फेज 2, नई दिल्ली-110020
 टेली: (+91)-11-40770100, 46533200, 26963571 फैक्स: (+91)-11-26856936
 ई-मेल / यूआरएल: investors@newgensoft.com / <https://newgensoft.com/>
 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 20.01.2025

मंडल के लिये और उसकी ओर से
 हस्ता/-
 दिवाकर निगम
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 सीआईएन: 00263222

PRITIKA ENGINEERING COMPONENTS LIMITED
 Regd. Office: Plot No. C-94, Phase-VII, Industrial Focal Point, S.A.S Nagar, Mohali-160055, Punjab
 CIN: L28999PB2018PLC047462 | Phone No. 0172-5008900
 Email: compliance.pec@pritikagroup.com | Website: www.pritikaengineering.com

NOTICE OF RECORD DATE
 Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation, 2015 that the Company has fixed Friday, 14th February, 2025 as the Record Date for the purpose of sub-division of Face Value of equity share from Rs. 10 each to Rs. 5 each and for ascertaining the eligibility of the member's entitled to receive the sub-divided equity shares.

The notice is also available on the website of the Company at www.pritikaengineering.com and on www.nseindia.com the website of the stock exchange where the shares of the Company is listed.
 Date: 20 Jan, 2025 For Pritika Engineering Components Ltd.
 Place: Mohali Harpreet Singh Nibber, Managing Director (DIN 00239042)

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
 (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)
 Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
 E-Auction Sale Notice of 15 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.) / Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 11.02.2025 at 11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery of Rs. 56,27,393/- (Rupees Fifty Six Lakh Twenty Seven Thousand Three Hundred Ninety Three Only) due as on 28 Oct 2022 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited) / Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) namely 1) Ashoka Knitting Works, 2) Ashok Kumar, 3) Mamta Rani, 4) Ram Gopal.

The Reserve Price will INR 14,62,660/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Two Thousand Six Hundred Sixty Only) for property 1 & INR 23,31,910/- (Rupees Twenty Three Lakh Thirty One Thousand Nine Hundred Ten Only) for property 2 and the earnest money deposit will be INR 1,46,266/- (Rupees One Lakh Forty Six Thousand Two Hundred Sixty Six Only) for property 1 and INR 2,33,191/- (Rupees Two Lakh Thirty Three Thousand One Hundred Ninety One Only) for property 2. The last date of EMD deposit is 10.02.2025.

For further details please contact at Ameen Kumar ameen.kumar@smfgindia.com +91 8685987810 & Harmani Jolly Harmani.Jolly@smfgindia.com +91 8655901470.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY: PROPERTY 1 All that part and parcel of property consisting of Khaska No. 1449, 1450, 1448, 1447, 1499/1 situated at Street No. 6 Bachitar Nagar Wakia Gill No. II Tehsil and District Ludhiana.
PROPERTY 2 Khaska No. 1449, 1450, 1448, 1447 situated at Wakia Gill II Tehsil and district Ludhiana.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in: SMFG India Credit Co. Ltd./Secured Creditors website i.e. www.smfgindia.com/https://smfgindia.auctionmgr.net.
 Place: Ludhiana Date: 21.01.2025 SD/-, Authorised Officer.
 SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
 (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)
 Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
 (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited). Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and Corporate office at 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 29-Oct-24 calling upon the borrower(s) 1) VIJAY NARANG, 2) NEELAM GULYANI KALURAM under loan account number (s) # 212720911017396 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 44,68,572/- (Rupees Forty Four Lakhs Sixty Eight Thousand Five Hundred Seventy Two Only) As on 25-10-2024 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 20th Day of Jan in the year 2025.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited) for an amount of Rs. 44,68,572/- (Rupees Forty Four Lakhs Sixty Eight Thousand Five Hundred Seventy Two Only) As on 25-10-2024 and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description Of Immovable Property: OWNER OF THE PROPERTY - NEELAM WIFE OF BARHU DAYAL PROPERTY DESCRIPTION - PROPERTY MEASURING SHOP NO. 144, MEASURING 15.67 SQ. YARDS, SITUATED IN WARD NO. 4, PANIPAT, WITHIN THE LIMIT OF M.C., TEHSIL AND DIST. PANIPAT BOUNDARIES. - EAST: PROPERTY OF MANOHAR LAL WEST: SADAK NORTH: PROPERTY OF MANOHAR LAL SOUTH: SHOP OF 145/4-A GAUTAM SAHAB.

Place: Panipat Date: 21.01.2025 SD/-, Authorised Officer.
 SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
 (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)
 Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
 (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited). Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and Corporate office at 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 29-Oct-24 calling upon the borrower(s) 1) VIJAY NARANG, 2) NEELAM GULYANI KALURAM under loan account number (s) # 212720911017396 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 44,68,572/- (Rupees Forty Four Lakhs Sixty Eight Thousand Five Hundred Seventy Two Only) As on 25-10-2024 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 20th Day of Jan in the year 2025.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited) for an amount of Rs. 44,68,572/- (Rupees Forty Four Lakhs Sixty Eight Thousand Five Hundred Seventy Two Only) As on 25-10-2024 and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description Of Immovable Property: OWNER OF THE PROPERTY - NEELAM WIFE OF BARHU DAYAL PROPERTY DESCRIPTION - PROPERTY MEASURING SHOP NO. 144, MEASURING 15.67 SQ. YARDS, SITUATED IN WARD NO. 4, PANIPAT, WITHIN THE LIMIT OF M.C., TEHSIL AND DIST. PANIPAT BOUNDARIES. - EAST: PROPERTY OF MANOHAR LAL WEST: SADAK NORTH: PROPERTY OF MANOHAR LAL SOUTH: SHOP OF 145/4-A GAUTAM SAHAB.

Place: Panipat Date: 21.01.2025 SD/-, Authorised Officer.
 SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

Classifieds
 FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
 Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090907, 22235897
PREET VIHAR : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210
SHARPUR : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST
JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA) : K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA : GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, NEW MOTI NAGAR : MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR : UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR : POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310067767, 65418908, TILAK NAGAR : SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, VIKAS PURI : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL
CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE : HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH
TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 981117748
KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) : MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH
CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, KALKAJI : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR : POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI : TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR
FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD : SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON : SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, GURGAON : AD MEDIA ADVERTISING & PR. Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29) : RDV ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65) : SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58) : JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 991191719
GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) : TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PWT ACADEMIES)
 FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155
 For CAD enquiries please contact :
 ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901
 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

JAI MATA GLASS LIMITED
 Regd. Office: TIPPRA, BAKOTWALA, DISTRICT. SOLAN (H.P.)-174 103
 Statement of Unaudited Financial Results For The Quarter And Nine Months Ended December 31, 2024 (Rs. Lacs)

Sl. No.	Particulars	Unaudited			Audited		
		3 months ended 31.12.2024	3 months ended 30.09.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.12.2023	Year to date figures for current period ended 31.12.2024	Year to date figures for corresponding period ended 31.12.2023	Year Ended 31.03.2024
	Income						
	Gross Sales						
	Other operating income	10.86	10.89	9.67	32.52	34.71	
	Revenues from Operation	10.86	10.89	9.67	32.52	34.71	
	Other Income	2.19	1.54	-	3.73	3.55	
1	Total Income from operations (Net) (1+2)	13.05	12.43	9.67	36.25	38.26	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and for extraordinary items) (3-4)	2.00	5.14	0.52	7.83	(4.35)	
3	Net Profit for the period (before tax, exceptional and for extraordinary items) (3-4) (After Exceptional and for extraordinary items)	2.00	5.14	0.52	7.83	(4.35)	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and for extraordinary items)	2.00	5.14	0.52	7.83	(4.35)	
5	Total Comprehensive Income (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax))	1.55	(1.88)	4.81	4.75	9.65	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Re. 1 each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	Other Equity					(691.27)	
8	Earnings per share (a) Basic & Diluted (in Rs)	0.002	0.005	0.001	0.008	(0.004)	
						0.002	

Notes:
 1 The financial results of the Company have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (Ind AS) Rules, 2015, as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
 2 The financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024, are available at the Company's website, www.jaimataglass.com and Bombay Stock Exchange website, www.bseindia.com.
 3 The Chief Financial Officer has certified that the financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024, do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.
 4 The Board of the Company is exploring and evaluating various business opportunities. Accordingly, the accounts of the Company have been prepared on a going concern basis.
 5 The above results for the quarter and nine months ended 31.12.2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 20, 2025. The unaudited results for the current quarter and the nine months have been subjected to limited review by the statutory auditor of the Company. The review report of the Statutory auditor is being filed with BSE Limited.
 6 The figures for the previous period have been regrouped/rearranged, wherever necessary, to conform to the current period's classification.
 By Order of the Board
 Jai Mata Glass Limited
 CHANDER MOHAN MARWAH
 Managing Director (DIN: 00172818)

FORM No. CAA-2
 [Pursuant to Section 230 (3) and Rule 6 and 7]]
 Before the Hon'ble National Company Law Tribunal Bench at Chandigarh,
 Company Application No. (CAA)38/CHD/CHD/2024
 In the matter of Section 230 - 232 of Companies Act, 2013 read along with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

And
IN THE MATTER OF

IND-SWIFT LIMITED
 Having its registered office at 781, Industrial Area Phase II, Chandigarh-160002.
 ... (Transferor Company / Applicant Company 1)

AND
IND-SWIFT LABORATORIES LIMITED
 Having its registered office at SCO 850, Shivalik Enclave, NAC, Manimajra Chandigarh-160101.
 ... (Transferee Company / Applicant Company 2)

Advertisement of notice of the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Ind-Swift Limited;

Notice is hereby given that by an order dated 03rd January, 2025 ('Order') the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal ('NCLT/Tribunal') has directed the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Ind Swift Limited (Transferor Company) to be held for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the arrangement embodied in the Scheme of Arrangement for Amalgamation of Ind-Swift Limited ("Transferor Company") and Ind-Swift Laboratories Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under Section 230-232 of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as directed therein, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued thereunder, as amended from time to time and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the separate meeting of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Ind Swift Limited (Transferor Company) would be held only through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means ("VC"/ "OAVM") as per the below mentioned schedule and the eligible participants are requested to attend their respective meetings at the scheduled time.

Schedule of Meetings:

Sr. No.	Class of Meetings	Day & Date of Meetings	Time of Meetings	Deemed Place of Meetings	Remote E-Voting Period
1	Equity Shareholders	Saturday, 22nd February, 2025	02:30 PM	Meeting shall be held through VC/OAVM for the purpose of which deemed venue shall be Registered Office of the Company.	From: 09:00 AM (IST) on February 19, 2025 Till: 05:00 PM (IST) on Feb. 21, 2025
2	Unsecured Creditors	22nd February, 2025	03:30 PM		

The notice of the aforesaid meetings alongwith the explanatory statements and requisite annexures have been sent to (a) all the shareholders of the Company whose names appear in the register of members / register of beneficial owners maintained by the depositories as on 10.01.2025; and (b) to the eligible unsecured creditors of the Company existing on the cut-off date of 30.06.2024. The Notices have been sent via email or courier (whose email id was not registered with the Company/Depository) on 20th January, 2025.

If so necessitated, and for the purpose of enabling dissemination of further information, the equity shareholders/unsecured creditors may update their email address by sending an email to companysec@indswift.com. In case the email id of any Shareholder of the Company is not updated, they may also contact the RTA of the Company at alankit@alankit.com for updating their email ids for receiving further updates.

For the purpose of the above mentioned meetings, the Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating voting by electronic means, as the authorised agency. The facility of voting by the Equity Shareholders and Unsecured Creditors using voting by electronic means will be provided by CDSL prior to the respective meetings (remote e-voting facility) as well as at the time of respective meetings (e-voting facility). However, the facility of remote e-voting before the meeting or e-voting during the meeting will only be available to a) Equity shareholders whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as of the cut-off date i.e. Saturday, February 15, 2025 b) Unsecured creditors of the Company existing on the cut-off date i.e. 30.06.2024. An Equity Shareholder/ Unsecured Creditor who has cast the vote prior to the meeting may also attend the meeting through VC/ OAVM but shall not be entitled to vote again during their respective meetings.

The detailed instructions pertaining to (a) remote e-voting; (b) e-voting on the date of the meeting; and (c) attending the meeting through VC are provided in the notice of the meetings and also available on the website of the Company viz. www.indswifttd.com.

Copies of the said Notice, Explanatory Statement and the Scheme of arrangement alongwith other annexures, under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 can be obtained free of cost at the registered office of the Company between 11.00 AM (IST) and 5.00 PM (IST) on all working days up to the date of the meeting and the same are also available on the website of the company and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Equity Shareholders of the Company seeking to inspect such documents through electronic mode can send an email to companysec@indswift.com. Since the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company are being held through virtual mode, there will not be any physical attendance of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors. Accordingly, the facility for appointment of proxies will not be available for the meeting.

In case of any query or grievance pertaining to remote e-voting/ e-voting and attending the meeting through VC, the Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, 5th Floor, A-WING, Marathon Futurax, BDD Chawl, Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013. Email:helpdesk.evoting@cdsindia.com, Toll free no: 1800 21 09911. Further, Members may also contact with Honey Chaudhary, Executive, Alankit Assignments Limited, RTA at honey.chaudhary@alankitassignments.com or on +91-7290012300 or 011-2354234/42541234, Fax: 011-4154 0064. The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Amit Chaudhary as the Chairperson, Mr. Shikhar Sarin, as the Alternate Chairperson and Mr. Salil Yadav as the Scrutinizer for all the aforementioned meetings.

The result of e-voting (remote e-voting prior to the Meeting and e-Voting at the Meeting) will be declared within 2 working days from the conclusion of the Meeting and the result of e-voting, along with the Scrutinizer's Report, will be uploaded on the website of the Company at www.indswifttd.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The result will be simultaneously disseminated to BSE and NSE.

The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench.

Sd/-
For Ind-Swift Ltd
Pardeep Verma
Authorised Signatory

Dated: 20th January, 2025
Place: Chandigarh

FORM No. CAA-2
 [Pursuant to Section 230 (3) and Rule 6 and 7]]
 Before the Hon'ble National Company Law Tribunal Bench at Chandigarh,
 Company Application No. (CAA)38/CHD/CHD/2024
 In the matter of Section 230 - 232 of Companies Act, 2013 read along with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

And
IN THE MATTER OF

IND-SWIFT LIMITED
 Having its registered office at 781, Industrial Area Phase II, Chandigarh-160002.
 ... (Transferor Company / Applicant Company 1)

AND
IND-SWIFT LABORATORIES LIMITED
 Having its registered office at SCO 850, Shivalik Enclave, NAC, Manimajra Chandigarh-160101.
 ... (Transferee Company / Applicant Company 2)

Advertisement of notice of the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Ind-Swift Limited;

Notice is hereby given that by an order dated 03rd January, 2025 ('Order') the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal ('NCLT/Tribunal') has directed the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Ind Swift Limited (Transferor Company) to be held for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the arrangement embodied in the Scheme of Arrangement for Amalgamation of Ind-Swift Limited ("Transferor Company") and Ind-Swift Laboratories Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under Section 230-232 of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as directed therein, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued thereunder, as amended from time to time and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the separate meeting of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Ind Swift Limited (Transferor Company) would be held only through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means ("VC"/ "OAVM") as per the below mentioned schedule and the eligible participants are requested to attend their respective meetings at the scheduled time:

Schedule of Meetings:

Sr. No.	Class of Meetings	Day & Date of Meetings	Time of Meetings	Deemed Place of Meetings	Remote E-Voting Period
1	Equity Shareholders	Saturday, 22nd February, 2025	02:30 PM	Meeting shall be held through VC/OAVM for the purpose of which deemed venue shall be Registered Office of the Company.	From: 09:00 AM (IST) on February 19, 2025 Till: 05:00 PM (IST) on Feb. 21, 2025
2	Unsecured Creditors	22nd February, 2025	03:30 PM		

The notice of the aforesaid meetings alongwith the explanatory statements and requisite annexures have been sent to (a) all the shareholders of the Company whose names appear in the register of members / register of beneficial owners maintained by the depositories as on 10.01.2025; and (b) to the eligible unsecured creditors of the Company existing on the cut-off date of 30.06.2024. The Notices have been sent via email or courier (whose email id was not registered with the Company/Depository) on 20th January, 2025.

If so necessitated, and for the purpose of enabling dissemination of further information, the equity shareholders/unsecured creditors may update their email address by sending an email to companysec@indswift.com. In case the email id of any Shareholder of the Company is not updated, they may also contact the RTA of the Company at alankit@alankit.com for updating their email ids for receiving further updates.

For the purpose of the above mentioned meetings, the Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating voting by electronic means, as the authorised agency. The facility of voting by the Equity Shareholders and Unsecured Creditors using voting by electronic means will be provided by CDSL prior to the respective meetings (remote e-voting facility) as well as at the time of respective meetings (e-voting facility). However, the facility of remote e-voting before the meeting or e-voting during the meeting will only be available to a) Equity shareholders whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as of the cut-off date i.e. Saturday, February 15, 2025 b) Unsecured creditors of the Company existing on the cut-off date i.e. 30.06.2024. An Equity Shareholder/ Unsecured Creditor who has cast the vote prior to the meeting may also attend the meeting through VC/ OAVM but shall not be entitled to vote again during their respective meetings.

The detailed instructions pertaining to (a) remote e-voting; (b) e-voting on the date of the meeting; and (c) attending the meeting through VC are provided in the notice of the meetings and also available on the website of the Company viz. www.indswifttd.com.

Copies of the said Notice, Explanatory Statement and the Scheme of arrangement alongwith other annexures, under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 can be obtained free of cost at the registered office of the Company between 11.00 AM (IST) and 5.00 PM (IST) on all working days up to the date of the meeting and the same are also available on the website of the company and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Equity Shareholders of the Company seeking to inspect such documents through electronic mode can send an email to companysec@indswift.com. Since the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company are being held through virtual mode, there will not be any physical attendance of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors. Accordingly, the facility for appointment of proxies will not be available for the meeting.

In case of any query or grievance pertaining to remote e-voting/ e-voting and attending the meeting through VC, the Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, 5th Floor, A-WING, Marathon Futurax, BDD Chawl, Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013. Email:helpdesk.evoting@cdsindia.com, Toll free no: 1800 21 09911. Further, Members may also contact with Honey Chaudhary, Executive, Alankit Assignments Limited, RTA at honey.chaudhary@alankitassignments.com or on +91-7290012300 or 011-2354234/42541234, Fax: 011-4154 0064. The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Amit Chaudhary as the Chairperson, Mr. Shikhar Sarin, as the Alternate Chairperson and Mr. Salil Yadav as the Scrutinizer for all the aforementioned meetings.

The result of e-voting (remote e-voting prior to the Meeting and e-Voting at the Meeting) will be declared within 2 working days from the conclusion of the Meeting and the result of e-voting, along with the Scrutinizer's Report, will be uploaded on the website of the Company at www.indswifttd.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The result will be simultaneously disseminated to BSE and NSE.

The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench.

Sd/-
For Ind-Swift Ltd
Pardeep Verma
Authorised Signatory

Dated: 20th January, 2025
Place: Chandigarh

THE BUSINESS DAILY.

FOR DAILY BUSINESS.

FINANCIAL EXPRESS

READ TO LEAD

financialexp.eppar.in

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd
 Regd. Office: 519, 5th Floor, DLF Prime Tower, Okhla Industrial Area, Phase -1, New Delhi - 110020
 Corporate Office: 7th Floor, Prius Heights, Sector 125, Noida - 201303

DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

NOTICE is hereby given that the following borrower/s who have availed from SATYA MICRO Housing Finance Private Limited (SMHFPL) have failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their loan to SMHFPL and that their loan account has been classified as Non-performing Asset as per the guidelines issued by National Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable property/ies to SMHFPL, the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to SMHFPL as on date are also indicated here below. The borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of SMHFPL, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFEASI Act). If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section (4) of Section 13 of SARFEASI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same. The public in general is advised not to deal with property/ies described here below.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower (s)/ Loan A/c No. / Branch	Demand Notice Date & Amount	Description of secured assets(s) (Immovable property/ies)
1.	H.L.NLAPNG000571 /Branch : Uttam Nagar 1. LAKHO, 2. MANOJ GUPTA ADD1:		